

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 1979/चैत्र 9, 1901
No. 80] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 1979/CHAITRA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 20-आईटीसी(पीएन)/79

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1979

विषय : 1978-79 के लिए आयात-नीति

भरिसल संख्या-6/170/78-ई पी. सी.—समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य
विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या-22 आईटीसी (पीएन)/78 दिनांक 3 अप्रैल, 1978
के अन्तर्गत प्रकाशन 1978-79 की आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उपर्युक्त आयात नीति के अनुबन्ध 17 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए दी गई
आयात नीति में वाणिज्य विभाग को सार्वजनिक सूचना संख्या-87 आईटीसी (पीएन)/78
दिनांक 14 सितम्बर, 1978 में उत्पाद वर्ग “बी” की श्रेणी संख्या-12 में विशिष्टीकृत रबड़
के विनिर्माण के निर्यात के मद्दे प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति दी गई थी।

प्राकृतिक रबड़ आर्थिक सहायता योजना जिसमें लागू किया गया है, उस ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि (क) इस मव के कालम 4 से पूर्वापेक्षी प्रभाव से हटाया जाए और (ख) केवल सम्बद्ध नियमित उत्पादों के मध्ये ही उक्त सार्वजनिक सूचना दिनांक 14 सितम्बर, 1978 से पूर्व अनुमति द्वां पर आयात प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाए।

3. इस मव के आयात के लिए पहले से जारी किए गए आर. ई. पी. लाइसेंसों की इस मव के हटाने के लिए सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों के पास प्रस्तुत किया जाए ताकि 1 अप्रैल, 1978 से सम्बद्ध नियमित प्राकृतिक रबड़ आर्थिक सहायता योजना के स्वयं उपलब्ध करने में समर्थ हो सकें।

क. वें. शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 21-ITC(PN)/79

New Delhi, the 30th March, 1979

Subject : IMPORT POLICY, 1978-79

F. No. 6/170/78-EPC.—Attention is invited to the Import Policy, 1978-79 published under the Department of Commerce Public Notice No. 22-ITC(PN)/78, dated the 3rd April, 1978 as amended from time to time.

2. In the import policy for Registered Exporters contained in Appendix 17 of the said Import Policy, natural rubber was permitted for import against the exports of specified Rubber Manufactures in Category No. XII in Product Group 'B' vide Department of Commerce Public Notice No. 67-ITC(PN)/78 dated the 14th September, 1978. In view of the Natural Rubber Subsidy Scheme that has been brought into force, it has been decided to (a) delete this item from Column 4, retrospectively with effect from and (b) allow import replenishment against the export products concerned only at the rates as admissible prior to, the said Public Notice dated the 14th September, 1978.

3. REP licences already issued for import of this item may be produced to the licensing authorities concerned for deletion of this item, so that the exporters concerned are able to avail themselves of the Natural Rubber Subsidy Scheme with effect from 1st April, 1978.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports